



FIROZABAD POLICE

“ सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा ”



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में थाना सिरसागंज पुलिस तथा एसओजी टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुठभेड़ में 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

- **01 अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद मोटरसाइकिल बरामद ।**
- **गिरफ्तार शातिर अभियुक्त सुपारी लेकर अपने साथियों सहित करता है हत्या ।**
- **शातिर अभियुक्त पर जनपद व गैर जनपद में करीब 01 दर्जन मुकदमें पंजीकृत हैं ।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में चैकिंग संदिग्ध वाहन/व्यक्ति व तलाश वाँछित अभियुक्तगण के सम्बन्ध में चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के कुशल नेतृत्व मे दिनांक 27.06.21 को इटावा रोड कस्बा सिरसागंज में आड़तिया पवन कुमार पुत्र दिवाकर सिंह नि0 अरांव रोड कस्बा व थाना सिरसागंज फिरोजाबाद की नवीन मण्डी जाते समय मोटर साइकिल सवार दो बदमाश अज्ञात द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी थी जिससे व्यापारी वर्ग में काफी भय व्याप्त हो गया था, के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज मय पुलिस टीम व एसओजी प्रभारी मय एसओजी टीम द्वारा दिनांक 13.07.2021 को समय करीब 01.40 बजे करहल रोड बिजली घर के पास से 01 नफर अभियुक्त सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल पुत्र विजय सिंह उर्फ खजान सिंह नि0 उरावर थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद को मुखबिर की सूचना पर चैकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है ।

अभियुक्त ने पूछताछ पर आडतिया पवन कुमार की हत्या में अपने साथी अमन यादव उर्फ बब्बन पुत्र अशोक यादव नि0 नगला महाराम थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद व राजीव यादव पुत्र रामचन्द्र नि0 चन्द्रहंस की मढैय्या थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद के साथ मिलकर सुपारी लेकर हत्या करना स्वीकार किया है । सुपारी मृतक पवन उपरोक्त की होने वाली पत्नी कु0 सोनम की बडी बहन राखी के पति यजुवेन्द्र उर्फ करू पुत्र राजकुमार नि0 उरमुरा थाना शिकोहावाद जिला फिरोजाबाद एवं इन्द्रजीत उर्फ झण्डू पुत्र टीकाराम नि0 चितावली थाना शिकोहावाद जिला फिरोजाबाद ने योगेश यादव पुत्र मानसिंह निवासी सजैती थाना जसराना जिला फिरोजाबाद को 05 लाख रूपये में सुपारी दी थी जिसको सुपारी किलर अभियुक्तगण सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल, अमन यादव उर्फ बब्बन तथा राजीव यादव द्वारा अन्जाम दिया गया था । पुछताछ पर अभियुक्त सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल उपरोक्त ने बताया कि मैंने सवा माह पूर्व अपने दोनों साथी अमन उर्फ बब्बन , राजीव यादव के साथ सुपारी लेकर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस में रामखिलाडी यादव पुत्र अजब सिंह यादव नि0 कमालपुर थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस की गोली मारकर हत्या करना स्वीकार किया है

जिसके सम्बन्ध में थाना सिकन्दराराऊ पर दिनांक 01.06.21 को मु0अ0सं0 223/21 धारा 302/34 भादवि0 बनाम सुबोध उर्फ पिन्टू आदि पंजीकृत है पकडा गया अभियुक्त भाडे पर हत्या करने का शातिर अपराधी है आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल पुत्र विजय सिंह उर्फ खजान सिंह निवासी उरावर थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।

अभियुक्त सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल से बरामदगी का विवरण:-

1. एक अदद तमंचा 315 बोर मय 02 अदद जिन्दा कारतूस व 02 अदद खोखा कारतूस 315 बोर।
2. घटना में प्रयुक्त एक अदद मो0सा0 HF डान रजि0नं0 UP 83 Z 1693

अभियुक्त सुखवीर उर्फ सुखैया उर्फ श्यामलाल उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 500/16 धारा 307/504/506 भादवि थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
2. मु0अ0सं0 581/16 धारा 394/411 भादवि थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
3. मु0अ0सं0 625/16 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
4. मु0अ0सं0 510/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
5. मु0अ0सं0 885/18 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना दक्षिण जिला फिरोजाबाद।
6. मु0अ0सं0 372/21 धारा 302/115/120बी भादवि0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
7. मु0अ0सं0 404/21 धारा 307 भादवि0 पु0मु0 थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
8. मु0अ0सं0 405/21 धारा 3/25ए एक्ट थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
9. मु0अ0सं0 223/21 धारा 302/34 भादवि0 थाना सिकन्दराराऊ जनपद हाथरस।

फरार अभियुक्तगण का नाम पता:-

1. अमन यादव उर्फ बब्बन पुत्र अशोक यादव नि0 नगला महाराम थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।
2. राजीव यादव पुत्र रामचन्द्र नि0 चन्द्रहंस की मढैय्या थाना नगला खंगर जिला फिरोजाबाद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. SHO गिरीश चन्द्र गौतम थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
2. एसओजी प्रभारी श्री विनोद कुमार मय एसओजी टीम
3. HC 101 रामअवतार सिंह, 4. HC 291 दिनेश गौतम, 5. HC 785 सुवनेश गौतम, 6. का0 1015 विजय कुमार, 7. का0 1323 मानवेन्द्र, 8. का0 836 लव प्रकाश गौतम, 9. का0 1116 योगेश कुमार, 10. का0 59 प्रमोद कुमार
11. उ0नि0 श्री रनवीर सिंह थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
12. उ0नि0 श्री नितिन कुमार त्यागी थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।
13. है0का0 693 कुलदीप सिंह, है0का0 583 वीरेश कुमार, है0का0 441 चम्पाराम, का.1321 परमानन्द थाना सिरसागंज जिला फिरोजाबाद।